



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 148]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1969/भाद्र 24, 1891

No. 148]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1969/EHADRA 24, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th September 1969

No. 1/3/68-Ad. C.—The following names may be added to Schedule I of this Ministry Resolution No. 1/3/68-Ad. C. dated the 9th July, 1969:—

X. *Ex-Officio Official Members.*

Secretary, Department of Petroleum, & Chemicals, Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines & Metals.—Shri B. Mukherjee

Additional Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance.—Shri H. N. Ray

Since Shri N. N. Mohan, a non-official member of the Advisory Council on Trade has died, his name in the list of the members of the Council may be treated as deleted. Schedule I to the Resolution No. 1/3/68-Ad. C. dated the 9th July, 1969, may be deemed to have been amended accordingly.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman Deputy Chairman, Members of the Advisory Council on Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the

Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1969

सं० 1/3/68-एड०सं०:—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/3/68-एड० सी० दिनांक 9 जुलाई, 1969 की अनुसूची 1 में निम्नलिखित नाम जोड़ दिये जायें :—

10. पक्षे सरकारी सदस्य

सचिव, पेट्रोलियम तथा रसायन
विभाग, पेट्रोलियम, रसायन,
खान तथा धातु मंत्रालय ।

श्री बी० मुखर्जी

अवर सचिव, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय ।

श्री एच० एन० रे

चूंकि श्री एन० एन० मोहन, जो व्यापार सलाहकार परिषद के एक गैर-सरकारी सदस्य थे, का देहान्त हो गया है, इसलिए परिषद के सदस्यों की सूची में से उनका नाम हटा हुआ समझा जाये । तदनुसार संकल्प सं० 1/3/68-एड० सी० दिनांक 9 जुलाई, 1969 की अनुसूची 1 को संशोधित समझा जाये ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति व्यापार सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेजी जाये ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आर० जे० रेबेल्लो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात